

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 485]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 — अग्रहायण 23, शक 1940

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-12/2018/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 432-क तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 359 सहपठित धारा 358 की उप-धारा (7) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में यथा परिकल्पित रीति से विस्तारित उत्पादक दायित्व के प्रवर्तन हेतु राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित आदर्श उप-विधियां बनाती है :-

आदर्श उप-विधियां

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) ये उप-विधियां (नगर का नाम) नगरपालिक अपशिष्ट प्रबंधन (विस्तारित उत्पादक दायित्व) उप-विधियां, 2018 कहलायेंगे।
(2) ये उप-विधियां यथास्थिति, संबंधित अधिनियम की धारा 432-क या धारा 359 के अधीन स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा इनके अंगीकरण किये जाने की तिथि से अथवा यथास्थिति, अधिनियम की धारा 432-क या धारा 359 के अनुसार, जो भी पहले हो, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से छः माह के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएँ.**— (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है संदर्भ के अनुसार, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) और/या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (ख) “शहर” से अभिप्रेत है स्थानीय नगरीय निकाय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकारिता में सम्मिलित क्षेत्र;
 - (ग) “ई-अपशिष्ट” से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे परित्यक्त कम्प्यूटर, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, वाशिंग मशीन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण;
 - (घ) “विस्तारित उत्पादक दायित्व” से अभिप्रेत है अनुसूची में सूचीबद्ध उत्पादों के किसी उत्पादक का उन उत्पादों के जीवन काल के अंत तक जनित अपशिष्ट के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन का दायित्व;

- (ड.) "निपटान" से अभिप्रेत है अनुसूची में सूचीबद्ध उत्पाद के अवशिष्ट भाग का नियमों के अनुसार विसर्जन, पुनःचक्रण, पुनःउपयोग तथा वैज्ञानिक निपटान;
- (च) "नगरपालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम की स्थिति में नगरपालिका आयुक्त तथा नगरपालिका और नगर पंचायत की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी;
- (छ) "उत्पादक" से अभिप्रेत है अनुसूची में सूचीबद्ध उत्पादों के उत्पादक और इसमें सम्मिलित है शहर में ऐसे उत्पादों के वितरक;
- (ज) "दायित्व" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पादकों के दायित्व का सम्यक् निर्वहन करना। शब्द 'उत्तरदायी' का अर्थ तदनुसार होगा;
- (झ) "नियम" से अभिप्रेत है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अधीन बनाये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित;
- (ञ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन उप-विधियों और इसके भाग के रूप में संलग्न अनुसूची;
- (ट) "स्थानीय नगरीय निकाय या यूएलबी" से अभिप्रेत है संदर्भ के अनुसार, नगरपालिक निगम और/या नगरपालिका और/या नगर पंचायत, पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से;
- (2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क. 37 सन् 1961) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं।
3. **विस्तारित उत्पादक दायित्व.**— (1) अनुसूची में सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पादक के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह स्वयं के व्यय से अनुसूची में उल्लिखित उत्पाद के लिये विनिर्दिष्ट दायित्वों का निर्वहन करे।
- (2) प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्पादक की ओर से अपने दायित्वों के निर्वहन में विफलता, नियम और/या अधिनियम के अनुसार उसे दण्डित किये जाने के लिये दायी बनायेगा।
4. **विस्तारित उत्पादक दायित्व के अंतर्गत दायित्व की गणना.**— (1) इन उप-विधियों और नियमों के अधीन समस्त राशियों के लिये दायित्व, यूएलबी के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर अवस्थित उत्पादकों पर होगा और यदि ये उत्पाद, अन्यत्र उत्पादित किये गये हों, तो दायित्व, ऐसे उत्पादों के स्थानीय वितरकों पर होगा।
- (2) भुगतान की गई राशि की गणना उत्पाद शुल्क और/या माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के प्रयोजन हेतु संधारित अभिलेखों के आधार पर की जायेगी।
- (3) यथास्थिति, उत्पादक/स्थानीय वितरक को यह विकल्प होगा कि वह या तो यूएलबी द्वारा संग्रहित अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान हेतु यूएलबी को संग्रहण शुल्क के भुगतान के पश्चात् वापस कर ले अथवा यूएलबी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित निपटान की राशि का भुगतान यूएलबी को करे।
5. **प्रवर्तन अधिकारी, उनके कर्तव्य और शक्तियाँ.**— (1) इन उप-विधियों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु नगरपालिका अधिकारी, एक ऐसे अधिकारी, जो सहायक अभियंता से निम्न श्रेणी का न हो, को प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा :
- परंतु यह कि नगरपालिका अधिकारी, एक से अधिक प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा और उन्हें विशिष्ट क्षेत्र सौंप सकेगा :
- परंतु यह और कि यदि किसी अधिकारी को प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया हो, तो नगरपालिका अधिकारी को प्रवर्तन अधिकारी माना जायेगा।
- (2) प्रवर्तन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम तथा इन उप-विधियों के प्रावधानों का प्रवर्तन हो और उसमें इस हेतु शक्तियाँ वेष्टित होगी।
- (3) उपरोक्त उप-उप-विधि (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रवर्तन अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—
- (क) इन नियमों तथा इन उप-विधियों में अन्तर्विष्ट अनुसार सभी हितधारकों में विस्तारित उत्पादक दायित्व (इपीआर) से संबंधित प्रावधानों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना;
- (ख) इन उप-विधियों में यथा परिभाषित शहर में उत्पादकों के अभिलेख को संधारित करना;
- (ग) उप-विधि 7 के अनुसार उत्पादक द्वारा संधारित इपीआर पंजी का समय-समय पर जांच करना;

- (घ) नगरपालिका की बकाया राशि की वसूली हेतु अधिनियम में उपबंधित अनुसार बकायादारों को नोटिस जारी करना और अनुपालन प्रवर्तित करना;
- (ङ) ऐसे समस्त कार्य करना, जैसा कि विस्तारित उत्पादक दायित्व से संबंधित नियमों तथा इन उप-विधियों के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नगरपालिका अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाये।
6. **भुगतान.**— इन उप-विधियों के अधीन भुगतान, यूएलबी के अभिहित खाते में किया जायेगा जैसा कि नगरपालिका अधिकारी द्वारा सलाह दी जाये तथा इसका उपयोग, यूएलबी द्वारा केवल इन उप-विधियों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जायेगा।
7. **अभिलेख.**— प्रत्येक उत्पादक, इन उप-विधियों के अधीन निर्वहित दायित्व का समुचित अभिलेख प्रारूप-1 पर पंजी में संधारित करेगा, जिसे इपीआर पंजी कहा जायेगा, तथा जब भी मांग की जाये, उसे प्रवर्तन अधिकारी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
8. **अपील.**— (1) कोई भी व्यक्ति, जो प्रवर्तन अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो, आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की कालावधि के भीतर नगरपालिका अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा :
परन्तु यह कि नगरपालिका अधिकारी स्वयं प्रवर्तन अधिकारी होने की दशा में, अपील अधिकारिता वाले संयुक्त संचालक के समक्ष की जा सकेगी।
(2) यथास्थिति, नगरपालिका अधिकारी अथवा अधिकारिता वाले संयुक्त संचालक के किसी आदेश के विरुद्ध अपील, नगरपालिक निगम की स्थिति में शासन तथा नगरपालिका एवं नगर पंचायत की स्थिति में संचालक के समक्ष आदेश प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की कालावधि के भीतर की जा सकेगी।
(3) यथास्थिति, संचालक या शासन का आदेश, अंतिम और बंधनकारी होगा।
9. **निर्वचन.**— इन उप-विधियों में अन्तर्विष्ट किसी प्रावधान के सही निर्वचन के संबंध में कोई संदेह होने की स्थिति में, नगरपालिका अधिकारी द्वारा शासन को संदर्भित किया जा सकेगा। शासन का निर्वचन, अंतिम और बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

अनुसूची
(उपविधि 3 एवं नियम 17 देखिये)

उत्पाद तथा उत्पादकों का विस्तारित दायित्व

स. क्र.	उत्पाद	जनित अपशिष्ट	उत्पादकों का विस्तारित दायित्व
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कांच के पात्र	संपूर्ण पात्र/कांच के टुकड़े	शहरी क्षेत्रों में निर्मित या वितरित बोतल पर रु. 10/- प्रति कि.ग्रा. इपीआर शुल्क का यूएलबी को भुगतान।
2.	पाउच में बंद चिप्स तथा अन्य तली हुई खाद्य सामग्री	खाली पाउच मल्टी लेयर पोलिमेर (चिप्स आदि के पैकिंग में उपयोग होने वाला)	(1) शहरी क्षेत्रों में निर्मित या वितरित पैकेजिंग सामग्री पर रु. 100/- प्रति कि.ग्रा. इपीआर शुल्क का यूएलबी को भुगतान। (2) प्रत्येक पाउच पर यह संदेश मुद्रित की जाये :- “कूड़ा न फैलाये। अपने शहर को साफ रखें।”
3.	डीओडोरेन्ट, शेविंग फोम, आफ्टर शेव लोशन, शीत पेय आदि	टीन, एरोसोल पैकिंग हेतु प्रयुक्त	शहरी क्षेत्रों में निर्मित या वितरित कन्टेनर पर रु. 100/- प्रति कि.ग्रा. इपीआर शुल्क का यूएलबी को भुगतान।
4.	थर्माल	थर्माल के कण और टुकड़े	शहरी क्षेत्रों में निर्मित या वितरित थर्माल पर रु. 20/- प्रति कि.ग्रा. इपीआर शुल्क का यूएलबी को भुगतान।

5.	पैकेट में बंद डेयरी उत्पाद; खाद्य तेल;	प्लास्टिक पाउच	(1) उत्पादक/वितरक द्वारा, जनित अपशिष्ट का वापस संग्रह किया जायेगा और उचित निपटान हेतु ले जाया जायेगा इसमें सम्मिलित है पुनःचक्रण उद्योगों को सौंपना या जीएसटी के प्रयोजन हेतु खरीदी अभिलेख संधारित करने उपयोग में लायी गई पैकिंग सामग्री की रु. 10/- प्रति कि.ग्रा. इपीआर शुल्क का यूएलबी को भुगतान। (2) प्रत्येक पाउच पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में यह संदेश मुद्रित किया जायेगा:- "उपयोग के पश्चात, कूड़ा न फैलाये, अपने शहर को साफ रखें।"
6.	सेनिटरी नेपकिन	उपयोग में लायी गई सेनिटरी नेपकिन	उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग में लायी गई नेपकिन के सुरक्षित निपटान हेतु लिफाफा उपलब्ध कराना।
7.	डायपर (बच्चा/वयस्क)	उपयोग में लाया गया डायपर (बच्चा/वयस्क)	
8.	मोटर यान बैटरी	उपयोग में लायी गई मोटर यान बैटरी	जब नई बैटरी का विक्रय किया जाये तब उत्पादक/वितरक को पुरानी बैटरी वापस लेनी होगी। पुरानी बैटरी का निपटान नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से करना होगा।
9.	शुष्क सेल	उपयोग किया हुआ शुष्क सेल	उत्पादक/वितरक द्वारा निःशुल्क सभी पुरानी बैटरी स्वीकार करना होगा जो यूएलबी या किसी व्यक्ति द्वारा उसे सौंपा जाये। पुरानी बैटरी का निपटान नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से करना होगा।
10.	कांच का शीट	टुटे कांच के टुकड़े	उत्पादक/वितरक को कबाड़-दर पर पुराने कांच के कण स्वीकार करनी होगी जो यूएलबी या किसी व्यक्ति द्वारा उसे सौंपा जाये। कांच का पुनर्चक्रण करना होगा या नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना होगा।
11.	सीरिज, सूर्य	उपयोग में लायी गई सीरिज, सूर्य	उत्पादक/वितरक को कबाड़-दर पर उपयोग किया हुआ सीरिज, सूर्य स्वीकार करना होगा जो यूएलबी या किसी व्यक्ति द्वारा उसे सौंपा जाये। सामग्री का पुनर्चक्रण किया जायेगा या नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जायेगा।
12.	साईकल और ऑटोमोबाईल के टायर	साईकल और ऑटोमोबाईल के फटा-पुराना टायर	उत्पादक/वितरक को कबाड़-दर पर साईकल और ऑटोमोबाईल के फटे-पुराने टायर स्वीकार करने होंगे जिसे यूएलबी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उसे सौंपा जाये। सामग्री का पुनर्चक्रण किया जायेगा या नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जायेगा।
13.	विद्युत बल्ब तथा ट्यूब	जले हुए विद्युत बल्ब और ट्यूब	उत्पादक/वितरक को कबाड़-दर पर पुराने विद्युत बल्ब और ट्यूब स्वीकार करना होगा जिसे यूएलबी या किसी व्यक्ति द्वारा उसे सौंपा जाये। सामग्री का पुनर्चक्रण किया जायेगा या नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जायेगा।
14.	इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कम्प्यूटर, टी.वी., वाशिंग मशीन इत्यादि	इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट तथा अपशिष्ट के अन्य रूप; नालीदार पेपर बोर्ड बाक्स/सीट; पॉलीथीन सीट, बबल रेपर; थर्मोकोल	उत्पादक/वितरक को कबाड़-दर पर पुराने इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को स्वीकार करना होगा जिसे यूएलबी या किसी व्यक्ति द्वारा उसे सौंपा जाये। सामग्री का पुनर्चक्रण किया जायेगा या नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जायेगा।

प्ररूप-1
(उपविधि 7 देखिये)

इपीआर पंजी

माह तथा वर्ष	छत्तीसगढ़ के शहरों में उत्पादित/बिक्री की मात्रा (कि.ग्रा. में)	यूएलबी को देय इपीआर शुल्क रुपये में	भुगतान किये जाने का विवरण
(एक)	(दो)	(तीन)	(चार)

अटल नगर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 5-12/2018/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-12/2018/18 दिनांक 14-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 14th December 2018

NOTIFICATION

N0. F 5-12/2018/18. — In exercise of the powers conferred by Section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and Section 359 read with clause (a) of sub-section (7) in Section 358 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following Model Bye-laws, for enforcement of the extended producer responsibility as envisaged in the Solid Waste Management Rules, 2016, framed under the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), namely :-

MODEL BYE-LAWS

1. **Short title and commencement.**— (1) These bye-laws may be called the (Name of the City) Municipal Waste Management (Extended Producer Responsibility) Bye-laws, 2018.
(2) These bye-laws shall come into force from the date of their adoption by the urban local body under Section 432-A or Section 359 of the relevant Act, as the case may be, or after six months from the date of their publication in the Official Gazette, whichever is earlier, in terms of Section 432-A or Section 359 of the Act, as the case may be.
2. **Definitions.**— (1) In these bye-laws, unless the context requires otherwise,—
 - (a) "Act" means, according to the context, Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956, (No.23 of 1956) and/or Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), as amended from time to time;
 - (b) "City" means the territory included in the administrative jurisdiction of the urban local body;
 - (c) "e-waste" means electronic waste like condemned computers, televisions, music systems, washing machines and other electronic equipment;
 - (d) "Extended Producer Responsibility" means responsibility of any producer of products listed in the Schedule for environmentally sound management of the waste generated, till end of life of the products;
 - (e) "Disposal" means dismantling, recycling, reusing and scientific disposal in accordance with the rules, of the residual parts of a product listed in the Schedule;

- (f) "Municipal Officer" means the Municipal Commissioner in the case of Municipal Corporations and the Chief Municipal Officer in the case of Municipalities and Nagar Panchayats;
- (g) "Producer" means the producer of products listed in the Schedule and includes the distributors of such products in the city;
- (h) "Responsibility" means duly discharging the producer's responsibility specified in the Schedule. The word 'responsible' shall be construed accordingly;
- (i) "Rules" means the Solid Waste Management Rules, 2016, framed under the Environment Protection Act, 1986 (No.29 of 1986) as amended from time to time;
- (j) "Schedule" means a Schedule appended to these bye-laws and forming a part of it;
- (k) 'Urban Local Body' or 'ULB' means, according to the context, Municipal Corporation and/or Municipality and/or Nagar Panchayat, separately or collectively.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Solid Waste Management Rules, 2016, the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), respectively.
- 3. Producer's extended responsibility.—** (1) Every producer listed in the Schedule shall be bound to discharge at his own cost the responsibility specified against the product in the Schedule.
- (2) Without prejudice to any other action under any other relevant law in force, the failure on the part of a producer to discharge his responsibility will make him liable for punishment according to the Rules and/or the Act.
- 4. Computation of liability under extended producer's responsibility.—** (1) The liability for all amounts under these bye-laws and the Rules shall be on producers located within the municipal area of the ULB, and if the product was manufactured elsewhere, the liability shall be on local distributors of such products.
- (2) The amount payable will be computed on the basis of the records maintained for the purpose of Excise Duty and/or Goods and Services Tax (GST).
- (3) The producer/local distributor, as the case may be, shall be free to either take back, after paying collection charges to the ULB, for scientific disposal the waste collected by the ULB, or to pay to the ULB the cost of disposal as may be fixed by the ULB from time to time.
- 5. Enforcement Officers, their duties and powers.—** (1) The Municipal Officer shall appoint an officer not below the rank of an Assistant Engineer as Enforcement Officer for enforcing the provisions contained in these bye-laws:
- Provided that the Municipal Officer may appoint more than one enforcement officer and assign to them specific territories:
- Provided further that if no officer has been appointed as Enforcement Officer then the Municipal Officer will be deemed to be the Enforcement Officer.
- (2) The enforcement officer shall ensure that the provisions of the Rules and these bye-laws are enforced and shall enjoy powers to this end.
- (3) Without prejudice to the generality of sub-bye-law (2) above, the duties and powers of the enforcement officer shall include the following:-
- (a) To create awareness among all stakeholders regarding the provisions relating to extended producer responsibility (EPR) as contained in the rules and these bye-laws;
- (b) To maintain a record of producers in the city as defined in these bye-laws;
- (c) To examine from time to time the EPR Register maintained by the producer in terms of bye-law 7;
- (d) To issue notices to defaulters and to enforce compliance as provided in the Act for recovery of Municipal dues;

- (e) To do all such acts as may be directed by the Municipal Officer for achievement of the object of the rules and these bye-laws relating to extended producer responsibility.
6. **Payments.**— Payments under these byelaws shall be made into the designated account of the ULB as may be advised by the Municipal Officer and shall be used by the ULB only for achieving the purposes of these bye-laws.
7. **Records.**— Every producer shall maintain proper record of the responsibility discharged under these bye-laws in register on Form-1, to be called the EPR Register, and make the same available to the Enforcement Officer for inspection as and when demanded.
8. **Appeal.**— (1) Any person aggrieved by any order of the Enforcement Officer may prefer an appeal before the Municipal Officer within a period of thirty days from the date of receipt of the order:
- Provided that in case the Municipal Officer is himself the Enforcement Officer, the appeal shall lie before the jurisdictional Joint Director.
- (2) An appeal against an order of the Municipal Officer, or the jurisdictional Joint Director, as the case may be, may be made within thirty days of receipt of the order before the Government in the case of Municipal Corporations, and the Director in the case of Municipalities and Nagar Panchayats.
- (3) The order of the Director or the Government, as the case may be, shall be final and binding.
9. **Interpretation.**— In the event of any doubt regarding the correct interpretation of any provision contained in these byelaws, a reference may be made to the Government by the Municipal Officer. The interpretation of the Government shall be final and binding.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKK, Deputy Secretary.

SCHEDULE
(See bye-laws 3 and rule 17)

Products and the Producer's Extended Responsibility

Sl. No.	Product	Waste Generated	Producer's Extended Responsibility
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Glass containers	Whole containers / Broken glass pieces	Pay to the ULB a EPR Fee of Rs.10/- per Kg of bottles manufactured or distributed in urban area.
2.	Pouched chips and other fried foodstuff	Empty pouches Multi-layer polymer (used for packaging chips, etc.)	(1) Pay to ULB a EPR Fee of Rs.100/- per Kg of packaging material manufactured or distributed in urban area. (2) Print a message on every pouch:- "Do not litter. Keep your city clean."
3.	Deodorant, shaving foam, after-shave lotion, soft drink, etc.	Tin, used for packing aerosols	Pay to the ULB a EPR Fee of Rs.100/- per Kg of containers manufactured or distributed in urban area.
4.	Thermocol	Thermocol bits and pieces	Pay to the ULB a EPR Fee of Rs.20/- per Kg of thermocol manufactured or distributed in the urban area.

5.	Packaged Dairy Products; edible oil;	Plastic pouches	<p>(1) The producer/ distributor shall collect back and carry the waste generated, for proper disposal including despatch to re-cycling industries OR pay to the ULB a EPR Fee of Rs.10/- per Kg of packaging material used as per purchase records maintained for the purpose of GST.</p> <p>(2) On every pouch a message will be printed in English and Hindi:- "Do not litter after use. Keep your city clean"</p>
6.	Sanitary Napkins	Used Sanitary Napkins	Provide envelops for safe disposal of the used napkins by the user.
7.	Diapers (child/adult)	Used Diapers (child/adult)	
8.	Motor Vehicle Batteries	Used Motor Vehicle Batteries	Producer/distributor to take back old batteries when a new battery is sold. Old batteries to be disposed of in a scientific manner consistent with the Rules.
9.	Dry cells	Used Dry cells	Producer/distributor to accept free of cost all old batteries handed to him by the ULB or any person. Old batteries to be disposed of in a scientific manner consistent with the Rules.
10.	Glass Sheets	Broken glass pieces	Producer/distributor to accept at scrap price all old glass bits handed to him by the ULB or any person. Glass to be recycled or disposed of in a scientific manner consistent with the Rules.
11.	Syringe, needles	Used Syringe, needles	Producer/distributor to accept at scrap price all used syringe and needles handed to him by the ULB or any person. Material to be recycled or disposed of in a scientific manner consistent with the Rules.
12.	Tyres for bicycles and automobiles	Worn out Tyres for bicycles and automobiles	Producer/distributor to accept at scrap price all old tyres handed to him by the ULB or any person. Material to be recycled or disposed of in a scientific manner consistent with the Rules.
13.	Electric bulbs and tubes	Fused Electric bulbs and tubes	Producer/distributor to accept at scrap price all old electric bulbs and tubes handed to him by the ULB or any person. Material to be recycled or disposed of in a scientific manner consistent with the Rules.
14.	Electronic products like computers, TV, Washing Machine, etc	e-waste and other forms of waste; Corrugated paperboard boxes/ sheets; Polythene sheets, Bubble wrapper; Thermocol	Producer/distributor to accept at scrap price all old e-waste handed to him by the ULB or any person. Material to be recycled or disposed of in a scientific manner consistent with the Rules.

FORM-1
(See byelaws 7)

EPR REGISTER

Month and Year	Quantity manufactured / sold in Chhattisgarh towns (in Kgs)	EPR Fee payable to ULB in Rs	Details of payment made
(i)	(ii)	(iii)	(iv)